

עָוֹן	אֵת	בְּ	הַפְּנִיעַ	וַיְהוּהוּ	פָּנִינוּ	לְדַרְכּוֹ	אִישׁ	תָּעִינוּ	כִּצְאוֹן	כִּלְנוֹ	6
अधर्म	को	उस-पर	डाला	और-यहोवाने	मुड़े	अपने-मार्गपर	प्रत्येक	भटक-गए	भेड़ोंकी-तरह	हम-सब	
H5771	H0853		H6293	H3068	H6437	H1870	H0376	H8582	H6629	H3605	

כִּלְנוֹ :
हम-सबका
[H3605](#)

किन्तु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर—उधर भटक गये। हममें से हर एक अपनी—अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिये जाने के बाद और हमारे अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया।

יִגְדַל	לְטַבֵּחַ	כִּשְׂהָ	פִּי	יִפְתַּח	וְלֹא	נִעְנָהּ	וְהוּא	נִשָּׂא	7
ले-जाया-जाता-है	वधके-लिए	भेड़की-तरह	अपना-मुँह	खोलता	और-नहीं	दुखित-था	और-वह	सताया-गया	
H2986	H2874	H7716	H6310		H3808		H1931	H5065	

פִּי :
अपना-मुँह
[H6310](#)

יִפְתַּח :
खोलता-था
[H3808](#)

וְלֹא :
और-नहीं
[H3808](#)

נִעְנָהּ :
चुप-थी
[H0481](#)

וְהוּא :
उसके-ऊन-कतरनेवालोंके
[H1494](#)

נִשָּׂא :
के-सामने
[H6440](#)

וְכִרְהָל :
और-भेड़ीकी-तरह
[H7353](#)

उसे सताया गया और दण्डित किया गया। किन्तु उसने उसके विरोध में अपना मुँह नहीं खोला। वह वध के लिये ले जायी जाती हुई भेड़ के समान चुप रहा। वह उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतारा जा रहा हो। अपना बचाव करने के लिये उसने कभी अपना मुँह नहीं खोला।

מִאֲרֶץ	נִגְזַר	כִּי	יִשְׁוֹחַח	מִי	חֹרֵוֹ	וְאֶת־	לָקַח	וּמִנְשָׁפֹט	מִעֲצָר	8
भूमि-से	काट-दिया-गया	क्योंकि	विचारेगा	कौन	उसकी-पीढ़ी	और-को	ले-लिया-गया	और-न्याय-से	अत्याचार-से	
H0776	H1504		H7878	H4310	H1755	H0853	H3947	H4941	H6115	

לָמוֹ :
उनको
[H5061](#)

נָנַע :
मार
[H5061](#)

עָמִי :
मेरी-प्रजाके
[H5061](#)

מִפְּשָׁע :
अपराधके-कारण
[H6588](#)

חַיִּים :
जीवितोंकी
[H6588](#)

लोगों ने उस पर बल प्रयोग किया और उसे ले गये। उसके साथ खेरपन से न्याय नहीं किया गया। उसके भावी परिवार के प्रति कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सजीव लोगों की धरती से उसे उठा लिया गया। मेरे लोगों के पापों का भुगतान करने के लिये उसे दण्ड दिया गया था।

חֶסֶד	לֹא־	עַל	בְּמִתּוֹ	עֲשִׂיר	וְאֶת־	קִבְרוֹ	רְשָׁעִים	אֶת־	וַיְהִן	9
हिंसा	नहीं	क्योंकि	अपनी-मृत्यु-में	धनीके-साथ	और-को	अपनी-कब्र	दुष्टोंके-साथ	को	और-उसने-ठहराया	
H2555	H3808		H4194	H6223	H0854	H6913	H7563	H0854	H5414	

בְּפִי :
उसके-मुँह-में
[H6310](#)

מִרְמָה :
छल
[H4820](#)

וְלֹא :
और-नहीं
[H3808](#)

עָשָׂה :
किया-था
[H3808](#)

उसकी मृत्यु हो गयी और दुष्ट लोगों के साथ उसे गाड़ा गया। धनवान लोगों के बीच उसे दफनाया गया। उसने कभी कोई हिंसा नहीं की। उसने कभी झूठ नहीं बोला किन्तु फिर भी उसके साथ ऐसी बातें घटीं।

זָרַע	יִרְאֶה	נִפְשׁוֹ	אָשָׁם	תָּשִׂים	אִם־	הַחֲלִי	רָכַאוֹ	חָפְזָן	וַיְהוּהוּ	10
वंश	वह-देखेगा	अपनी-जान	दोष-बलि	तू-रखेगा	यदि	रोगी-बनाया	उसे-कुचलना	चाहा	और-यहोवाने	
H2233	H7200	H5315	H0817				H1792		H3068	

יִצְלַח :
सफल-होगी
[H3027](#)

בִּירוֹ :
उसके-हाथ-में
[H3068](#)

יְהוּהוּ :
यहोवाकी
[H3068](#)

וְחָפְזָן :
और-प्रसन्नता
[H2656](#)

יָמִים :
दिनोंको
[H3117](#)

יִאָרֶיךָ :
लम्बे-करेगा
[H0748](#)

यहोवा ने उसे कुचल डालने का निश्चय किया। यहोवा ने निश्चय किया कि वह यातनाएँ झेले। सो सेवक ने अपना प्राण त्यागने को खुद को सौंप दिया। किन्तु वह एक नया जीवन अनन्त—अनन्त काल तक के लिये पायेगा। वह अपने लोगों को देखेगा। यहोवा उससे जो करना चाहता है, वह उन बातों को पूरा करेगा।

לְרַבִּים עֲבָדַי צָרִיק יִצְרִיק בְּרַעְתּוֹ יִשְׁבֵּעַ יִרְאֶה נַפְשׁוֹ מִעַמְלָה
 बहुतीको मेरा-दास धर्मी धर्मी-ठहराएगा अपने-ज्ञानसे तृप्त-होगा वह-देखेगा अपनी-जान अपनी-जानके-कष्ट-से
[H5650](#) [H6662](#) [H6663](#) [H1847](#) [H7646](#) [H7200](#) [H5315](#) [H5999](#)

11

וְעוֹנְתָם הוּא יִסְבֹּל:
 और-उनके-अधर्मोंको वह उठाएगा
[H5445](#) [H1931](#) [H5771](#)

वह अपनी आत्मा में बहुत सी पीड़ाएँ झेलेगा किन्तु वह घटने वाली अच्छी बातों को देखेगा। वह जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करता है, उनसे संतुष्ट होगा। मेरा वह उत्तम सेवक बहुत से लोगों को उनके अपराधों से छुटकारा दिलाएगा। वह उनके पापों को अपने सिर ले लेगा।

לָלוֹן אֶחָלֵק- לוֹ בְּרַבִּים וְאֶת- עֲצוּמִים יִחַלֵּק שָׁלַל תִּנְחַת אֲשֶׁר הֵעֵרָה
 इसलिये बाँटूँगा उसको बड़ोंके-साथ और-को शक्तिशाली वह-बाँटेगा लूट के-बदले जो उड़ेल-दिया
[H6168](#) [H8478](#) [H7998](#) [H6099](#) [H0854](#)

12

וְלַפְשָׁעִים לְמִוְתָּהּ נַפְשׁוֹ וְאֶת- רַבִּים רַבִּים וְהוּא נִמְנָה פְּשָׁעִים
 और-अपराधियोंके-लिए उठाया बहुतीका पाप और-वह गिना-गया अपराधियोंके-साथ और-को अपनी-जान मृत्युको
[H6586](#) [H5375](#) [H2399](#) [H1931](#) [H4487](#) [H6586](#) [H0854](#) [H5315](#) [H4194](#)

וְיַפְיָעֵ: ס
 बिनती-करता-है
[H6293](#)

इसलिए मैं उसे बहुतों के साथ पुरस्कार का सहभागी बनाऊँगा। वह इस पुरस्कार को विजेताओं के साथ ग्रहण करेगा। क्यों क्योंकि उसने अपना जीवन दूसरों के लिए दे दिया। उसने अपने आपको अपराधियों के बीच गिना जाने दिया। जबकि उसने वास्तव में बहुतेरों के पापों को दूर किया और अब वह पापियों के लिए प्रार्थना करता है।